

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 1972/भाद्र 22, 1894

No. 237] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 1972/BHADRA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filled as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th September 1972

G.S.R. 408(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Service Act, 1951 (1 of 1951), read with sub-rule 2 of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Rajasthan, hereby makes the following regulations, namely:—

2. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Ninth Amendment Regulations, 1972.

(2) The amendments shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment to the Fixation of Cadre Strength

RAJASTHAN

1. Senior posts under the State Government	85
Chief Secretary to the Government	1
Chairman Board of Revenue	1
Commissioners-cum-Secretaries/Ex-officio Secretaries to the Government	10
Commissioner for Departmental Enquiries	1
Commissioner, Commercial Taxes	1
Members, Board of Revenue	3
Commissioners, Area Development	2
Secretaries/Special Secretaries to Government	9
Deputy Secretaries to Government	14
Settlement Commissioner and ex-officio Director of Consolidation	1
Director of Community Development and Panchayats	1
Chief Electoral Officer and Director of Election and ex-officio Secretary to Government	1
Registrar, Co-operative Societies	1
Secretary to Governor	1
Secretary to Chief Minister	1
Collectors	26
Director of Industries	1
Director, Harishchandra Mathur Government Institute of Public Administration	1
Commissioner, Excise	1
Secretary, Rajasthan Canal Board	1
Commissioner, Colonisation, Rajasthan Canal Project and Bhakhra Project	1
Additional Commissioner, Commercial Taxes	1
Registrar, Board of Revenue	1
Additional Registrar, Board of Revenue	1
Revenue Appellate Authority	1
Additional Commissioner, Food & Civil Supplies	1
Secretary, Rajasthan Vigilance Commission	1
	85
2. Central Deputation Reserve @ 40 per cent of 1 above	34
	119
3. Posts which can be filled by promotion or selection in accordance with rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 @ 25 per cent of 1 plus 2 above	29
4. Posts to be filled by direct recruitment 1 plus 2 minus 3	80
5. Deputation Reserve @ 20 per cent of 4 above	22*

6. Leave Reserve @ 5 per cent of 4 above	5
7. Junior Posts @ 20.60 of 4 above	19
8. Training Reserve @ 10.59 per cent of 4 above	10
Direct Recruitment Posts	146
Promotion Posts	29
Total Authorised Strength	175

*Includes 4 posts in excess of 20 per cent.

[No. 33/15/71-AIS(II)-A.]

मंलिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1972

सा० का० नि० 408 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (सं बर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के साथ परामर्श करके एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

2. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का निर्धारण) नौवां संशोधन विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये संशोधन सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

संवर्ग संख्या के निर्धारण में संशोधन

राजस्थान

1. सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	85
सरकार के मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	1
आयुक्त सह-सचिव/सरकार के पदेन सचिव	10
विभागीय जांच आयुक्त	1
आयुक्त वाणिज्य कर	1
सदस्य, राजस्व बोर्ड	3

आयुक्त, क्षेत्र विकास	2
सरकार के सचिव/विशेष सचिव	9
सरकार के उप सचिव	14
बन्दोबस्त आयुक्त तथा पदेन चकबन्दी निदेशक	1
पंचायत तथा सामुदायिक विकास निदेशक	1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचन निदेशक तथा सरकार के पदेन सचिव	1
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ	1
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
समाहर्ता	26
उद्योग निदेशक	1
निदेशक, हरिशचन्द्र माथर राजकीय लोक प्रशासन, संस्थान	1
आबकारी आयुक्त	1
सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड	1
आयुक्त, कालोनी निर्माण, राजस्थान नहर परियोजना तथा भाखड़ा परियोजना	1
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर	1
रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड	1
अपर रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड	1
राजस्व, अपील प्राधिकारी	1
अपर आयुक्त, खाद्य तथा सिविल पूर्ति	1
सचिव, राजस्थान सतर्कता आयोग	1
	85
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से	34
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति तथा चयन द्वारा भरे जा सकने वाले पद उपर्युक्त (1) जमा (2) के 25 प्रतिशत के हिसाब से	29

4	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त (1) तथा (2) में से 3 घटाकर	90
5	प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से	22*
6	छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से	5
7	कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से,	19
8	प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से	10
	सीधी भर्ती वाले पद	146
	पदोन्नति वाले पद	29
	कुल प्राधिकृत संख्या	175

* 20 प्रतिशत के अनतिरिक्त 4 पद शामिल हैं।

[सं० 33/15/71-अ० भा० मे० (II)-क]

G.S.R. 409(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Rajasthan hereby makes the following amendments to Schedule III appended to the said rules.

2. (1) These amendments may be called the Fifteenth Amendment of 1972 to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(2) These amendments shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment to Schedules to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

3. In the said Schedule III, under the heading "A-Posts carrying pay above the senior scale pay in the Indian Administrative Service under the State Gov-

ernments' against Rajasthan, for the existing entries, the following entries may be substituted:—

<i>Particulars of Posts</i>	<i>Pay</i>
Chief Secretary to Government.	Rs. 3,500.
Chairman, Board of Revenue	Rs. 3,000.
Commissioner-cum-Secretaries/ Ex-officio Secretaries to the Government	Rs. 2,500—125/2—2,750.
Commissioner for Departmental Enquiries.	Rs. 2,500—125/2—2,750.
Commissioner, Commercial Taxes	Rs. 2,500—125/2—2,750.
Member(s), Board of Revenue	Rs. 2,500—125/2—2,750.
Managing Director, Rajasthan Financial Corporation.	Rs. 2,500—125/2—2,750.
Commissioner(s), Area Development	Rs. 2,500—125/2—2,750.

4. Under the heading 'B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the senior scale' against Rajasthan for the existing entries, the following entries may be substituted, namely:—

Secretaries/Special Secretaries to Government.

Deputy Secretaries to Government.

Settlement Commissioner & Ex-officio Director of Consolidation.

Director of Community Development and Panchayats.

Chief Electoral Officer and Director of Election and ex-officio Secretary to Government.

Registrar, Co-operative Societies.

Secretary to Governor.

Secretary to Chief Minister.

Collectors.

Director of Industries.

Director, Harishchandra Mathur Government Institute of Public Administration.

Commissioner, Excise.

Secretary, Rajasthan Canal Board.

Commissioner, Colonisation, Rajasthan Canal Project & Bhakhra Project.

Additional Commissioner, Commercial Taxes.

Registrar, Board of Revenue.

Additional Registrar, Board of Revenue.

Revenue Appellate Authority.

Additional Commissioner, Food & Civil Supplies.

Secretary, Rajasthan Vigilance Commission.

General Manager, Rajasthan State Road Transport Corporation.
 Secretary, Rajasthan State Electricity Board.
 Managing Director, Rajasthan Mineral Development Corporation.

[No. 33/15/71-AIS(II)-B.]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

सा० का० नि० 409 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के परामर्श से उक्त नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-3 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. (1) इन संशोधनों को भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1972 का पन्द्रहवां संशोधन कहा जा सकेगा।

(2) ये संशोधन भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची में संशोधन

3. उक्त अनुसूची-III में “क—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पद” शीर्षक के अधीन राजस्थान के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायें :—

पद का नाम	वेतन
सरकार के मुख्य सचिव	₹० 3,500
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	₹० 3,000
आयुक्त-सह-सचिव	
सरकार के पदेन सचिव	₹० 2500—125/2—2750
विभागीय जांच आयुक्त	₹० 2500—125/2—2750
वाणिज्य कर आयुक्त	₹० 2500—125/2—2750
सदस्य, राजस्व बोर्ड	₹० 2500—125/2—2750
प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम	₹० 2500—125/2—2750
आयुक्त क्षेत्र विकास	₹० 2500—125/2—2750

4. "ख—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में वे पद जिनका वेतन वरिष्ठ वेतनमान में है, जिनमें वे पद भी शामिल हैं जिनके विशेष वेतन वरिष्ठ वेतनमान के अतिरिक्त हैं" शीर्षक के अधीन राजस्थान के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात् :—

सरकार के सचिव/विशेष सचिव

सरकार के उपसचिव

बन्दोबस्त आयुक्त तथा पदेन

चकबन्दी निदेशक

पंचायत तथा सामुदायिक विकास निदेशक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचन निदेशक तथा सरकार के पदेन सचिव

रजिस्ट्रार, सहायक समितियाँ

राज्यपाल के सचिव

मुख्य मंत्री के सचिव

समाहर्ता (कलक्टर)

उद्योग निदेशक

निदेशक, हरिश्चन्द्र माथर राजकीय लोक प्रशासन संस्थान

आवकारी आयुक्त

सचिव, राजस्थान नहर बोर्ड

आयुक्त, कालोनी निर्माण, राजस्थान

नहर परियोजना तथा भाखड़ा परियोजना

अपर आयुक्त, वाणिज्य कर

रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड

अपर रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपर आयुक्त, खाद्य तथा सिविल पूर्ति

सचिव, राजस्थान सतर्कता आयोग

महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य मड़क परिवहन निगम

सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत् बोर्ड

प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान खनिज विकास निगम ।

[सं० 33/15/71-अ० भा० से० (2)-ख]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव ।